



# सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

### असाधारण

प्रयागराज, मंगलवार, 7 दिसम्बर, 2021 ई०

(अग्रहायण 16, 1943 शक संवत्)

कार्यालय, जिला निर्वाचन (पंचायत एवं नगरीय निकाय), हमीरपुर  
संख्या 512/जि०नि०का०/पं० एवं न०नि०/ह०/त्रि०पं०रिक्त पद निर्वा०, 2021/सूचना  
दिनांक : 07 दिसम्बर, 2021 ई०

#### सूचना

उत्तर प्रदेश शासन के पंचायतीराज विभाग की अधिसूचना संख्या 2264/33-3-2021-255/2002टी०सी०, दिनांक 06 दिसम्बर, 2021 के क्रम में भारत के संविधान के अनुच्छेद 243ट सपटित उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 12-खख के अन्तर्गत प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुये राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या 5436/रा०नि०आ०-3/पं०नि०/60-21/2021, दिनांक 06 दिसम्बर, 2021 में निर्वाचन कार्यक्रम निर्धारित करते हुये ग्राम पंचायतों के प्रधानों तथा सदस्यों के वैधानिक रूप से रिक्त स्थानों/पदों जो मा० न्यायालय के स्थगनादेश से बाधित न हो, पर उप निर्वाचन कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। अतः उक्त अधिसूचना के प्रस्तर-2 में दिये गये निर्देशों के क्रम में मैं, डॉ० चन्द्र भूषण, जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पं०एवं न०नि०) हमीरपुर एतद्द्वारा नीचे सारिणी में दिये गये कार्यक्रम के अनुसार निम्न ग्राम पंचायतों के सदस्यों के पद पर उप निर्वाचन कराये जाने का निर्देश देता हूँ—

#### समय-सारिणी

नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने का अन्तिम दिनांक व समय	नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा का दिनांक व समय	उम्मीदवारी वापस लेने का दिनांक व समय	प्रतीक आवंटन का दिनांक व समय	मतदान का दिनांक व समय	मतगणना का दिनांक व समय
1	2	3	4	5	6
12 दिसम्बर, 2021 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे तक)	13 दिसम्बर, 2021 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	14 दिसम्बर, 2021 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 03.00 बजे तक)	14 दिसम्बर, 2021 (अपराह्न 03.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	20 दिसम्बर, 2021 (प्रातः 08.00 बजे से अपराह्न 05.00 बजे तक)	21 दिसम्बर, 2021 (प्रातः 08.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)

## रिक्त स्थानों/पदों का आरक्षण सहित विवरण

क्रमांक	विकास खण्ड	ग्राम पंचायत का नाम	रिक्त पद का विवरण	वार्ड संख्या	आरक्षण की श्रेणी
1	2	3	4	5	6
1	कुरारा	लहरा	सदस्य ग्राम पंचायत	3	अनु0जाति
2		"	सदस्य ग्राम पंचायत	5	पि0जा0म0
3		बरुआ	सदस्य ग्राम पंचायत	7	अनारक्षित
4		भौली	सदस्य ग्राम पंचायत	1	अनारक्षित
5		"	सदस्य ग्राम पंचायत	2	अनारक्षित
6		"	सदस्य ग्राम पंचायत	3	महिला
7		"	सदस्य ग्राम पंचायत	4	अनु0जा0म0
8		"	सदस्य ग्राम पंचायत	5	पि0जा0
9		"	सदस्य ग्राम पंचायत	6	अनारक्षित
10		"	सदस्य ग्राम पंचायत	7	अनारक्षित
11		"	सदस्य ग्राम पंचायत	8	महिला
12		"	सदस्य ग्राम पंचायत	11	पि0जा0म0
13		"	सदस्य ग्राम पंचायत	12	अनारक्षित
14		"	सदस्य ग्राम पंचायत	13	पि0जा0म0
15		"	सदस्य ग्राम पंचायत	14	अनारक्षित
16		"	सदस्य ग्राम पंचायत	15	अनारक्षित
17	सुमेरपुर	इंगोहटा	सदस्य ग्राम पंचायत	8	पि0जा0
18		बांकी	सदस्य ग्राम पंचायत	9	अनारक्षित
19		"	सदस्य ग्राम पंचायत	5	पि0जा0म0
20		दरियापुर	सदस्य ग्राम पंचायत	1	अनु0जा0म0
21		बरदहा सहजना	सदस्य ग्राम पंचायत	7	अनु0जा0म0
22		अतरार	सदस्य ग्राम पंचायत	9	अनु0जा0म0
23		बरुआ	सदस्य ग्राम पंचायत	1	पि0जा0म0
24		"	सदस्य ग्राम पंचायत	11	अनु0जा0म0
25	मौदहा	परछा	सदस्य ग्राम पंचायत	6	अनारक्षित
26		बिगहना	सदस्य ग्राम पंचायत	2	अनु0जा0

1	2	3	4	5	6
27	राठ	मझगवां	सदस्य ग्राम पंचायत	9	पि0जा0म0
28		मझगवां	सदस्य ग्राम पंचायत	13	पि0जा0म0
29		मवई	सदस्य ग्राम पंचायत	6	पि0जा0
30		गल्हिया	सदस्य ग्राम पंचायत	5	अनु0जा0
31	सरीला	विरहट	सदस्य ग्राम पंचायत	3	अनारक्षित
32		चण्डौतडांडा	सदस्य ग्राम पंचायत	13	अनारक्षित
33		खण्डौत	सदस्य ग्राम पंचायत	5	अनारक्षित
34		बरगवां	सदस्य ग्राम पंचायत	11	अनारक्षित
35		खेडाशिलाजीत	सदस्य ग्राम पंचायत	1	अनु0जा0
36		सोडाशिलाजीत	सदस्य ग्राम पंचायत	15	अनु0जा0म0
37		मनकहरी	सदस्य ग्राम पंचायत	9	अनु0जा0

2—उक्त ग्राम पंचायतों के सदस्यों के रिक्त स्थान/पद पर निर्वाचन हेतु प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्ड) का पूर्ण विवरण देते हुये निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा दिनांक 08 दिसम्बर, 2021 को सार्वजनिक सूचना निर्गत की जायेगी। इस निर्वाचन कार्यक्रम को प्रमुख स्थानीय समाचार-पत्रों में प्रकाशित कराते हुये व्यापक प्रचार कराया जायेगा और गांवों में मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को इसकी सूचना दी जायेगी। सार्वजनिक जानकारी हेतु ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, तहसील कार्यालय और जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के सूचना पट्ट पर यह कार्यक्रम प्रदर्शित किया जायेगा। उक्त उप निर्वाचन उत्तर प्रदेश पंचायत राज (सदस्यों, प्रधानों और उप प्रधानों का निर्वाचन), नियमावली, 1994 के अनुसार सम्पन्न होगा। निर्वाचन अधिकारी की सूचना निर्गत किये जाने के दिनांक अर्थात् दिनांक 08 दिसम्बर, 2021 से नामांकन-पत्रों का विक्रय किया जायेगा।

3—उपर्युक्त उप निर्वाचन में ग्राम पंचायत, सदस्यों के नामांकन-पत्र दाखिल करने, उनकी संवीक्षा करने, उम्मीदवारी वापस लेने, चुनाव चिन्ह आवंटन तथा मतगणना का कार्य सम्बन्धित विकास खण्ड मुख्यालय पर होगा परिणाम की घोषणा सम्बन्धित विकास खण्ड मुख्यालय पर की जायेगी।

4—उपर्युक्त समय-सारिणी के मध्य पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों पर भी सम्बन्धित कार्यालय खुले रहेंगे और निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

5—संदर्भित निर्वाचन कोविड-19 व अन्य किसी महामारी के सम्बन्ध में राज्य आपदा प्रबन्ध, राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध, राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन कराते हुये सम्पन्न कराये जायेंगे।

डॉ0 चन्द्र भूषण,  
जिला मजिस्ट्रेट /  
जिला निर्वाचन अधिकारी,  
(पंचायत एवं नगरीय निकाय),  
हमीरपुर।